



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 11.09.2022 को अवैध जुआ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 नवरोत्तम सिंह ने मय हमराही गणों की मदद से ताश पत्तो से रुपये-पैसो की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तगण को बस स्टैण्ड सुगिरा के पास से मय मालफड 1120/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ता व जामा तालाशी 280/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 252/2022 धारा 13 जुंआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नवरोत्तम सिंह
2. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह
3. कां0 अभिषेक कुमार
4. कां0 अरुण कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. गोलू मंसूरी पुत्र हसमत अली उम्र करीब 26 वर्ष
2. शिवा तिवारी पुत्र सुरेश उम्र करीब 19 वर्ष
3. प्रदीप यादव उर्फ मंगल पुत्र रामपाल उम्र करीब 19 वर्ष
4. हसीन मंसूरी पुत्र शरीफ उम्र करीब 32 वर्ष
5. हेमन्त अहिरवार पुत्र खेमचन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक/वाहन चेकिंग का विशेष अभियान..

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में बैंकों और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाली लूट, छिनैती, चोरी तथा टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आज दिनांक 12.09.2022 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व बैंक चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंक में आने वाले ग्राहकों के वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े हो ताकि सड़क पर आने-जाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि बैंक चेकिंग अभियान को अनवरत जारी रखा जाए,

अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी गणों और थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर बैंक चेकिंग की गयी

जनपदीय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे सुरक्षा उपकरणों यथा सीसीटीवी कैमरों, आपातकालीन अलार्म तथा अग्निशामक यंत्रों को चेक किया गया। बैंकों में सुरक्षा के दृष्टिगत पायी गयी कमियों के संबंध में बैंक अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें ठीक करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर दिनेश तिवारी द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ राम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त देशराज पुत्र फूला अहिरवार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को सम्बन्धित केश न0 2417/20 व एनसीआर न0 97/16 धारा 323/504 भादवि से ग्राम ननौरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ राम थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. का0 यादवेन्द्र सिंह थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

देशराज पुत्र फूला अहिरवार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार द्वारा आयोजित की गयी "पुलिस की पाठशाला"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार की अध्यक्षता में आज दिनांक 12.09.2022 को महिलाओं / बालिकाओं की सुरक्षार्थ चलाए जा रहे मिशन-शक्ति अभियान के तहत महिला थाना महोबा की एंटी रोमियो टीम के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत भवन मितरला में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिल्पी शुक्ला की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के संबंध में, सोशल मीडिया प्लेटफार्म से संबंधित आवश्यक सावधानी बरतने, साइबर अपराध से बचने के संबंध में जागरूक किया गया। महिला हेल्पडेस्क, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत संचालित एंटीरोमियो टीम द्वारा उपस्थित बालिकाओं/महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में जागरूक किया गया तथा उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्कवायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया। महिलाओं/बालिकाओं को यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे डायल 112, वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्प लाइन 1076 के बारे में जानकारी दी गयी।

इसी क्रम मे जनपद के समस्त थानों में गठित एंटीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों व थानों में स्थापित महिला हेल्पडस्क की जानकारी दी गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ.नि. राजकुमार यादव द्वारा 01 नफर वारंटी बृजराज शिवहरे पुत्र स्व0 बाबूलाल शिवहरे उम्र 50 वर्ष निवासी करहराखुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केस न. 21ए/2005 व मु.अ.स. 16/04 धारा 302/201 भादवि थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. राजकुमार यादव थाना चरखारी जनपद महोबा
2. का. अनूप कुमार रत्ना थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजराज शिवहरे पुत्र स्व0 बाबूलाल शिवहरे उम्र 50 वर्ष निवासी करहराखुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष खरेला श्री सुखशेखर राही द्वारा टीम गठित कर उ०नि० शिवकुमार यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त दिनेश राजपूत पुत्र सुरेशचन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ टिकरी नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 86/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० शिवकुमार यादव थाना खरेला जनपद महोबा
2. का.चन्दन कुमार थाना खरेला जनपद महोबा
3. का.राहुल यादव थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनेश राजपूत पुत्र सुरेशचन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा

कारतूस सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री शिवआसरे द्वारा बनायी गयी संयुक्त टीम व 030नि0 नरेशचन्द्र निगम व 030नि0 दिनेशचन्द्र द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. दीपक राजपूत पुत्र कालीचरन राजपूत उम्र 18 वर्ष 2. सौरभ राजपूत पुत्र सत्यनारायण राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष, को 01-01 अदद तमंचा 315 बोर, जिन्दा कारतूस 315 बोर व खोखा कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 175/2022 व 176/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक राजपूत पुत्र कालीचरन राजपूत उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम शेरगढ़ थाना पनवाड़ी जनपद महोबा 2. सौरभ राजपूत पुत्र सत्यनारायण राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व.उ.नि.श्री नरेशचन्द्र निगम थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. 030नि0 दिनेशचन्द्र थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. हे0का0 प्रदीप कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
4. का. शिवसागर सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
5. का. अभिषेक कुमार यादव थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 आशिक अली द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त मनोज कुमार अनुरागी पुत्र बिन्दा प्रसाद उम्र 24 वर्ष को ग्राम महेवा से गिरफ्तार किया गया जो मु0न0 2090ए/2020 धारा 379/411/413/420 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी को गिरफ्तार कर उप जिला कारागार महोबा भेजा गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशिक अली
2. कां0 शरद कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनोज कुमार अनुरागी पुत्र बिन्दा प्रसाद उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम महेवा थाना कबरई जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वांछित व अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री शिवआसरे द्वारा बनायी गयी टीम उ0नि0 रवि कुमार सिंह द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त अनिल पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम गरौठा कस्वा मु0 पटेलनगर थाना गरौठा जनपद झाँसी उम्र करीब 31 वर्ष, को 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया जो मु.अ.स 160/2021 धारा 394/411/34 भादवि मे वांछित था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 182/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल पुत्र किशोरीलाल उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम गरौठा कस्वा मु0 पटेलनगर थाना गरौठा जनपद झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रवि कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. का0 राहुल कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. का0 विमल कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।



आज दिनांक **12.09.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त

करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **68** ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस